

# Uno Minda Limited

(Formerly known as Minda Industries Limited)



Ref. No. Z-IV/R-39/D-2/NSE/207 & 174

Date: 19/09/2024

<b>National Stock Exchange of India Ltd.</b> Listing Deptt., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	<b>BSE Ltd.</b> Regd. Office: Floor - 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001.
NSE Scrip: UNOMINDA	BSE Scrip: UNOMINDA 532539

Sub: Submission of newspapers clippings

Dear Sirs,

This is in continuation of our intimation dated 18/09/2024, we are pleased to enclose copies of the newspapers advertisement published in Business Standard, Financial Express (English) and Business Standard (Hindi) on 19/09/2024, regarding dispatch of Postal Ballot Notice to the shareholders on 18/09/2024, seeking their approval on one resolution, as set out in the notice and requested them also to cast their votes on the said resolution.

The copy of the aforesaid newspapers clippings also uploaded on the company's website at [www.unominda.com](http://www.unominda.com)

This is for your information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Uno Minda Limited

Tarun Kumar Srivastava  
Company Secretary & Compliance Officer



Encl: As above.

**BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, DELHI.**  
4th Floor Jeevan Tara Building Parliament Street New Delhi - 110001.  
Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institutions Act 1993 read with rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule) 1993 in the matter of  
OAN 293/2023  
HDFC BANK LTD.  
DATE: 31.07.2024  
APPLICANT

**VERSUS**

**RESPONDENT**  
D1. Cavana Clothing Pvt Ltd. Flat No 17 17th Floor Bk-1 Diamond Square Plot No 13a Sect 6 Dwarka New Delhi 75 Also ICH No 543-544 Kapashera Bijnawar Road High Tension Lane Near Oberoi Farm New Delhi - 75. D2. Mr. Dipu Gupta S/o Ganesh Gupta 171 Diamond Square CGHS Ltd Plot No 13A Sect 6 Dwarka Delhi - 75. D3. Mr. Rahul Soni S/o Mr. Anup Soni House No 220 Upper Ground G K 1 Greater Kailash Delhi - 48  
Whereas the above named applicant (s) has/have instituted a case for recovery of Rs. 15,54,73,805.24/- (Rupees Fifteen Crore Fifty Four Lakh Seventy Three Thousand Eight Hundred Five And Twenty Four Paise only) against you and where as it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in the Tribunal on 08.10.2024 AT 10.30 A.M. Take notice that in default of your appearance on the date before the mentioned, the case will be heard and determined in your absence. All the matters will be taken up through video Conferencing or physical and for that purpose: (i) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application/software; (ii) "Meeting ID" and Password for the date of hearing qua cases to be taken by Hon'ble Presiding Officer/Registrar shall be displayed in the daily case list itself as directed by the Tribunal in (iii) in any exigency qua that the Advocate/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 23748478. Given under my hand and seal of the Tribunal this 31st day of July, 2024.

By Order of the Tribunal,  
Section Officer, DRT-II, DELHI.

**PMFC FINCORP LIMITED**  
Registered Office: B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur, Uttar Pradesh - 244901, India.  
Corporate Office: Flat No. 201 & 202, 2nd Floor, Rattan Jyoti Building, 18, Rajendra Place, New Delhi-110008, India.  
Telephone No.: 011-47631025, 26, 27; Email: contact@pmfcincorp.com; Website: www.pmfcincorp.com  
Contact Person: Mr. Kailash, Company Secretary and Compliance Officer  
Corporate Identification Number: L27109UP1965PLC006998

**FOR KIND ATTENTION OF PHYSICAL SHAREHOLDERS OF PMFC FINCORP LIMITED.**

To, Physical Shareholders

This is to apprise the physical shareholders of PMFC Fincorp Limited ("the Company") that the Board of Directors of the Company has approved a Rights Issue of up to 17,80,20,400 (Seventeen Crore Eighty Lakh Twenty Thousand Four Hundred) fully paid-up Equity Shares of the face value of ₹1/- each ("Rights Equity Shares") at an issue price of ₹2.75/- per Rights Equity Share (including a share premium of ₹1.75/- per equity share), aggregating up to ₹48,95,56,100/- (Rupees Forty-Eight Crore Ninety-Five Lakh Fifty-Six Thousand One Hundred Only) to the existing eligible equity shareholders of the Company in the ratio of 1 (One) rights equity share for every 3 (Three) fully paid-up equity shares held by the eligible equity shareholders as on the record date (to be notified later). The Company has already applied with BSE Limited for seeking its in-principal approval for the proposed rights issue.

As per our records, you are a shareholder of the Company holding equity shares in physical form. In this regard, we wish to inform you that, in accordance with Regulation 77A of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only.

Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form, are advised to have their physical shares dematerialised at the earliest to enable the Company/Registrar to capture the demat account details, and credit the Rights Entitlements therein.

For more details, please refer to chapter titled "Terms of Issue" on Page 127 of the Draft Letter of Offer available on the following websites:  
a. Our Company at www.pmfcincorp.com  
b. The Stock Exchange: www.bseindia.com

In view of the aforesaid, to be able to participate in the proposed rights issue, we request you to act upon the above instructions.

For details, please contact your Depository Participant or for any query or assistance, please contact the Company at contact@pmfcincorp.com or the Registrar to the Company at ipo@skylivemta.com.

For PMFC Fincorp Limited  
On behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
Kailash  
Company Secretary and Compliance Officer

Date: September 18, 2024  
Place: New Delhi

**"FORM NO. INC-25A"**  
ADVERTISEMENT TO BE PUBLISHED IN THE NEWSPAPER FOR CONVERSION OF PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY  
Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 And  
in the matter of M/s AMCO Investment & Leasing Ltd. having its registered office at M-5A, Magnum House-II Karampara Commercial Complex, New Delhi-110015, Applicant

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Tuesday, 03<sup>rd</sup> day of September, 2024 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd floor, PL Deendayal Anandya Sharma, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

For and on behalf of the Applicant  
AMCO Investment & Leasing Limited,  
Sd/-  
Sanjay Gupta  
(Director)  
DIN: 00051693  
Office Address: M-5A, Magnum House-II, Karampara Commercial Complex, New Delhi-110015.  
Date: 19/09/2024  
Place: New Delhi

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT**  
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

**FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF DALMIA LIFE CARE PRIVATE LIMITED**

**RELEVANT PARTICULARS**

1. Name of corporate debtor	DALMIA LIFE CARE PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of corporate debtor	06th February, 2013
3. Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	Registrar of Companies, Delhi
4. Corporate Identity No./ Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U74110DL2013PTC247936
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	97-B S/F Anirpuri, Garhi South Delhi, New Delhi-110065, India
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	12th September, 2024 (IRP received communication from Hon'ble NCLT on 17th September, 2024)
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	11th March, 2025
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as Interim resolution professional	Name- Mr. Rakesh Kumar Reg No. IBI/PA-001/IF-P-02355/2020-2021/13448
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Titik Marg, New Delhi-110001 Email- rathorey@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address - Flat M First Floor, Sagar Apartments, Titik Marg, New Delhi-110001 Email - Dalmia.arp@gmail.com
11. Last date for submission of claims	1st October, 2024 (from the date of order received by the IRP on 17th September, 2024)
12. Classes of creditors, if any, under a class (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a) www.ibbi.gov.in

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Dalmia Life Care Private Limited on 12th September, 2024 (IRP received communication from Hon'ble NCLT on 17.09.2024). The creditors of Dalmia Life Care Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 1st October, 2024 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 13 of the Form A. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit their claims with proof in person, by post or by electronic means. The claims may be submitted in the specified Forms B, C, CA, D, E and F in terms of Regulations 7, 8, 9A, 9B and 9C of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 by the Operational Creditors, Financial Creditors, Workmen or Employees, Authorized Representative of group of workmen & employees & other creditors respectively as the case may be. A financial creditor belonging to a class, as listed against entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class in Form CA. Submission of false or misleading proof of claim shall attract penalties.

Sd/-  
Rakesh Kumar  
Interim Resolution Professional  
Reg No. IBI/PA-001/IF-P-02355/2020-2021/13448  
Place: New Delhi  
Date: 19-09-2024

**SMFG India Home Finance Company Ltd.**  
(Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)  
Corporate Off.: 503 & 504, 5<sup>th</sup> Floor, G-Block, Inspire BKC, Block Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051  
Regd. Off.: 1st Floor, 3<sup>rd</sup> Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road, Matiaruvai, Chennai - 600 095.

**POSSESSION NOTICE FOR IMMovable PROPERTY [(Appendix IV) Rule 8(1)]**

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of SMFG India Home Finance Company Ltd. (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.) a Housing Finance Company [duly registered with National Housing Bank (Fully Owned by RBI)] (hereinafter referred to as "SMHFC") under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon to be the borrowers (names mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the undersigned has Taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned herein above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and any dealings with the property will be subject to the charge of "SMHFC" for an amount as mentioned herein under and interest thereon.

Sl. No. / Guarantor(s) LAN	Description of Secured Assets (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
LAN 114139211349839	Property Land Measuring Area 04 Marla 03 Sarsai Being 13/3594 Share Out of 59 Kanal 18 Marla Comprised In Khatwa No. 87, Khatoni No. 119, 120 Situated At Village Behampur Tehsil Bapoli Distt. Panipat. Boundaries East :- House of Tejpal, West :- House of Anita Wu, Kuldeep, North :- Street, South :- Agriculture Land.	14.06.2024 Rs. 9,76,373/- (Rupees Nine Lakh 76,373/-) Seventy Six Thousand Three Hundred Seventy Three Only) as on 12.06.2024.	18.09.2024
(1) Mahavir Singh S/o Ashok Kumar (2) Umesh			

Place: Panipat, Haryana  
Date: 18.09.2024

Sd/-  
Authorized Officer, SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED  
(Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)

**HDFC BANK** Head Office: HDFC Bank Ltd., HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Panel, Mumbai - 400 013  
We understand your work. Branch Office: Legal HDFC Bank Ltd. First Floor/Near Domino's/Pizza/Karamchari Nagar Chauraha/M1 Bypass

**DEMAND NOTICE UNDER SEC 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.** The following borrowers & co-borrowers availed the below mentioned secured loans from HDFC Bank Ltd. the loans of below mentioned borrowers & co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms & conditions of the respective loan agreements and had become regular, their loans were classified as NPA's as per the RBI guidelines. Amounts due by them to HDFC Bank Ltd are mentioned in the following table and further interest on the said amounts shall also be payable as applicable and the same will be charged with effect from their respective dates.

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of the Property	Address of the Property / Assets Details	Amount Due as on Date of Demand Notice	Date of NPA
M/s Meta Brands (Borrower) Through its Proprietor Mr. Mohd Zaid Siddiqui	Property Land Measuring Area 04 Marla 03 Sarsai Being 13/3594 Share Out of 59 Kanal 18 Marla Comprised In Khatwa No. 87, Khatoni No. 119, 120 Situated At Village Behampur Tehsil Bapoli Distt. Panipat. Boundaries East :- House of Tejpal, West :- House of Anita Wu, Kuldeep, North :- Street, South :- Agriculture Land.	Property situated at Plot No. 40, (256 31 square yards) i.e. 214.30 square meters, out of Khat No-212) Village- Rahrura Chaudhry (Arshna Residency), Pargana, Tehsil & District- Bareilly EAST- Rasta 40 Feet Wide Rehpora Road WEST- Plot No-41 NORTH- Plot No 40-A-SOUTH- Rasta 30 Feet Wide Threather Plot No-1 Owner Name :- Shakra Siddiqui & Mohd Zaid Siddiqui Type of Property :- Residential	Rs. 15,42,732/- (Notice Date :- 30-Aug-2024)	21-07-2024
M/s. Shakra Siddiqui (Co-Borrower & Mortgagor) Who Shri Iqar Uddin Siddiqui	All Piece and Parcel of PLOT KHASRA No. 158/1, area 83.6 Sq. Mtr. Situated MAJUJA Sakandra Bahistabad Tehsil kamp; Distt Agra -282001 Boundary Bakeshwar Main Tehsil and Distt Agra BOUNDARY:- East-Property of Pappu, West-Property of Ramwaroop, North-Property of Rohsalant, South-Rasta 20 Ft Wide And Exit	Property situated at Plot No. 255 To 260 Area 83.6 Sq. Mtr. Situated At Menka Palace Behind Bakeshwar Main Tehsil and Distt Agra BOUNDARY:- East-Property of Pappu, West-Property of Ramwaroop, North-Property of Rohsalant, South-Rasta 20 Ft Wide And Exit	Rs. 11,59,166/- (Rupees Eleven Lakh Fifty Nine Thousand One Hundred Sixty Six Only) Due As On 18-Sep-2023 Together With Interest From 19-Sep-2023 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment.	17-Sep-24

Since the notices sent to you in the address in which you originally reside / carry on business / personally works for gain has returned to us, we are constrained to cause this notice published. You are hereby called upon to repay the amount mentioned above mentioned liability with contracted rate of interest thereon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days of this notice failing which the Bank will be exercising all or any of the rights u/ Sec 13(4) of the above Act. You are also put to notice that as per terms of Sec 13 of the above Act, you shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets.

Authorized Officer,  
For HDFC Bank Ltd.

Date: 19.09.2024, Place: Bareilly

**India Shelter INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD.**  
Home Loans  
REGD. OFFICE: PLOT-15, 6TH FLOOR, SEC-44, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM, HARYANA-122002  
Branch Office: SHOP NO. 6, UPPER GROUND FLOOR, C.R. MALL, CHURCH ROAD, RAM NAGAR COLONY, AGRA 282002

**SYMBOLIC POSSESSION NOTICE FOR IMMovable PROPERTY**

Whereas, The Undersigned Being The Authorised Officer Of India Shelter Finance And Corporation Ltd, Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement (Security) Interest Act, 2002 And In Exercise Of Power Conferred Under Section 13(12) Read With Rule 3 Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002 Issued A Demand Notice On The Date Noted Against The Account As Mentioned Hereinafter, Calling Upon The Borrower And Also The Owner Of The Property/Surety To Repay The Amount Within 60 Days From The Date Of The Said Notice, Whereas The Owner Of The Property And The Other Having Failed To Pay The Amount, Notice Is Hereby Given To The Under Noted Borrowers And The Public In General That The Undersigned Has Taken Symbolic Possession Of The Properties Described Herein Below In Exercise Of The Powers Conferred On Him/Her Under Section 13(4) Of The Said Act Read With Rules 8 & 9 Of The Said Rules On The Dates Mentioned Against Each Account. Now, The Borrower In Particular And The Public In General Is Hereby Cautioned Not To Deal With The Properties And Any Dealing With The Properties Will Be Subject To The Charge Of India Shelter Finance Corporation Ltd For An Amount Mentioned As Below And Interest Thereon, Costs, Etc.

Sl. No.	Name Of The Borrower/Guarantor (owner Of The Property) & Loan Account Number	Description Of The Charged (mortgaged Property) (all The Part & Parcel Of The Property Consisting Of)	Date Of Demand Notice, Amount Due As On Date Of Demand Notice	Date Of Symbolic Possession
1	Mr./ Mrs. Kavita / Mr./ Mrs. Vijay Pratap Singh Reside At- H.No.37531/1, New Nagla Pad Agra 282005, Uttar Pradesh / Plot Kharsa No 158/1, Mauja Sakandra Bahistabad Tehsil & AMP, Distt Agra -282001 LOAN ACCOUNT NO. VHO20000286	All Piece And Parcel Of PLOT KHASRA No. 158/1, area 83.6 Sq. Mtr. Situated MAJUJA Sakandra Bahistabad Tehsil kamp; Distt Agra -282001 Boundary Bakeshwar Main Tehsil and Distt Agra BOUNDARY:- East-Property of Pappu, West-Property of Ramwaroop, North-Property of Rohsalant, South-Rasta 20 Ft Wide And Exit	DEMAND NOTICE 18.09.2023 Rs. 11,59,166/- (Rupees Eleven Lakh Fifty Nine Thousand One Hundred Sixty Six Only) Due As On 18-Sep-2023 Together With Interest From 19-Sep-2023 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment.	14-Sep-24
2	Mr. / Mrs. Chamei Devi / Mr. / Mrs. Udayavir Singh / Mr./ Mrs. Laxman / Mr. / Mrs. Yogesh Reside At H.No.35/9/365, Geeta Nagar Baimiki Basti, Bakeshwar, Agra Uttar Pradesh-282005 LOAN ACCOUNT NO. CLA100003841	All Piece and Parcel Property Bearing Plot Kharsa No.255 To 260 Area 83.6 Sq. Mtr. Situated At Menka Palace Behind Bakeshwar Main Tehsil and Distt Agra BOUNDARY:- East-Property of Pappu, West-Property of Ramwaroop, North-Property of Rohsalant, South-Rasta 20 Ft Wide And Exit	DEMAND NOTICE 16.09.2022 Rs. 35,989,47/- (Rupees Three Lakh Thirty Five Thousand Eight Hundred Nine And Fourty Seven Paise Only) Due As On 15-Sep-2022 Together With Interest From 16-Sep-2022 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment.	17-Sep-24

For any query please Contact Mr. Sudhir Tomar (+91 9818460101)  
Place: Agra, Date: 19/09/2024

(Authorized Officer)  
For India Shelter Finance Corporation Ltd

**Ujjivan SMALL FINANCE BANK** SECOND FLOOR, GMTT BUILDING D-7 SECTOR 3 NOIDA UP 201301

**POSSESSION NOTICE (For Immovable property) [Rule 8(1)]**

Whereas, The undersigned, being the Authorised Officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to borrower/ Guarantor on the dates mentioned hereunder; calling upon the Borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice. The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account.

The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank Ltd. for an amount for the amount(s), mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account.

Name of address of Borrower/ Co-Borrower/Mortgagor	Description of the Immovable property	Date of Demand Notice and Date of possession	Amount as per demand notice
(1) Shah Fahad, S/o Hifzur Rehman @ Hifrajul Rahaman @ Hifzul Rahman, House no: 341, Gulayan Bagh, Near Tiles Wali Masjid, Moradabad, Uttar Pradesh -244001 (2) Khushreeda Rahaman @ Khushreeda Rahaman, W/o Hifzur Rehman @ Hifrajul Rahaman @ Hifzul Rahman, House no: 341, Gulayan Bagh, Near Tiles Wali Masjid, Moradabad, Uttar Pradesh - 244001, In Loan Account No. 2319220230000082	All that Part & Parcel of Residential property measuring 70 sq. meters bearing bearing Kharsa/Gata no: 178, situated at Mouja/Village Rasoolpur Nagla Khem, Tehsil and Distt: Moradabad, Uttar Pradesh which is bounded as follows: Boundaries: East: Plot of another person, West: Road, North: Plot of another person, South: Plot of seller. The Property belongs to Shah Fahad S/o Hifzur Rehman @ Hifrajul Rahaman i.e., no. 1 between you	Date of Demand Notice: 26-06-2024 Date of possession: 17.09.2024	Rs. 13,06,480/- as on 25-06-2024 and interest thereon.

Date: 19.09.2024 Place: MORADABAD Authorised Officer

**KOTAK KOTAK MAHINDRA BANK LTD.**  
Registered Office:- 27 BKC, C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, Corporate Identity No. L65110MH1985PLC038137.  
Regional Office, Kotak Mahindra Bank Ltd., EPICAR, 2nd Floor, 68.6/1, Najafgarh Road, Mohi Nagar, New Delhi-110015.

**PUBLIC NOTICE FOR AUCTION SALE**

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/Co-Borrower/Guarantor/Mortgagor that the below described immovable properties mortgaged to Kotak Mahindra Bank Ltd. and the Physical Possession of which has been taken over by the Authorised Officer of Kotak Mahindra Bank Ltd. will be sold on "AS IS WHERE IS" "WHATSOEVER THERE IS" AND "AS IS WHAT" basis. Offers are invited to take part in e-auction through the Web Portal of our e-Auction Service Partner, M/s C1 India Pvt Ltd ([www.c1india.com](http://www.c1india.com)) i.e. <http://www.bankauctions.com> by the undersigned for sale of the immovable properties of which particulars are given below:-

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property	Reserve Price / (Rupees Fifty Two Lakh Forty Eight Thousand Eight Hundred Only)	Date of Inspection of Immovable property	Date/Time of Auction
1. M/s Libra Sales Enterprises Through its Proprietor Mr. Atul Luthra (Borrower), Z. Mrs. Rachna Luthra (Guarantor & Mortgagor), (Loan Account No. 63221.0100002372, 63222.010000000292, 64222.01000000002)	09/08/2024 Rs. 1,02,48,247.36/- (Rupees One Crore Two Lakh Forty Eight Thousand Two Hundred Forty Seven and Paise Three Only)	All The Parts And Parcel Of The Properties Bearing Address :- Property Property No. 20-A, Second Floor, with roof rights, out of Rect.No.52, Killa No.17, situated at Abadi of Guru Angad Nagar Extension, Laxmi Nagar, in the area of village Khursid, Kharsa, Shahid Shikara, Delhi-110052, owned by Mrs. Rachna Luthra, area measuring 100 sq. yds. Bounded By: North: Road 30 ft wide South: Galoi 15 ft wide East: Plot No-28 West: Plot No-29 B-TYPE OF POSSESSION: Physical	Rs. 52,48,800/- (Rupees Fifty Two Lakh Forty Eight Thousand Eight Hundred Only) Earliest Money Deposit (EMD) 10% of Bid Amount	03/10/2024 1100 hrs - 1400 hrs	09/10/2024 from 1100 hrs to 1200 hrs

Last Date for Submission of Offers / EMD:- 08/10/2024 till 5.00 pm. (Incremental Amount: Rs. 50,000)

**Important Terms & Conditions of Sale:**

- The Auction is conducted as per the further Terms and Conditions of the Bid document and as per the procedure set out therein. Bidders may go through the website of our e-Auction Service Provider, M/s C1 India Pvt Ltd i.e. [www.bankauctions.com](http://www.bankauctions.com), documents, the details of the secured asset put up for e-Auction and the Bid Form which will be submitted to the authorized officer at the branch office/regional office as provided herein above.
- All the intending purchasers/bidders are required to register their name in the Web Portal mentioned above as [www.bankauctions.com](http://www.bankauctions.com) and generate their User ID and Password in free of cost of their own to participate in the e-Auction on the date and time aforesaid.
- For any enquiry, information, support, procedure and online training on e-Auction, the prospective bidders may contact the M/s C1 India Pvt Ltd Department of our e-Auction Service Partner M. P. Oshara Krishna, through Tel. No. +91 729191124 25,26. Mobile No. 9948182222 E-mail ID: andhra@c1india.com & support@bankauctions.com
- To be the best of knowledge and information of the Authorized officer, there is no encumbrance in the properties. However, the intending bidders may inspect the property and its documents as mentioned above or any other date & time with prior appointment and they should make their own independent inquiries regarding the encumbrance, title of properties put up on e-Auction and claims/rights/affecting the property prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute any commitment or any representation of KMBL. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to KMBL. The Authorized officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues.
- For participating in the e-Auction, intending purchasers/bidders will have to submit/upload in the Web Portal ([www.bankauctions.com](http://www.bankauctions.com)) the details of payment of interest-free refundable earnest money deposit (EMD) of the secured asset as mentioned above by way of Demand Draft in favour of Kotak Mahindra Bank Limited payable at Delhi along with self-attested copies of the PAN Card, Aadhaar Card, Residence Address Proof, Board Resolutions in case of company and Address Proof as specified along with the requisite bidder form in this regard.
- The Successful Bidder is required to deposit the TDS % of the total auction amount in the name of the mortgagor if the Reserve auction amount is of Rs. 50,00,000.00 (Rupees Fifty Laks Only) or more. The Pan Card of Mrs. Rachna Luthra (Mortgagor) is ANFLP72028.

The Borrower (s) / Mortgagor (s) / Guarantor (s) are hereby given STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE 6(2), 8(b) & 9(b) OF THE SARFASIES ACT to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with to date interest and expenses within thirty days from the date of this notice failing which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in English and Vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity. If the borrower/guarantors/mortgagors pay the amount due to Bank, in full before the date of sale, auctioned item to be stopped.

For detailed terms and conditions of the sale, kindly visit our official website <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html> or contact the Bank officer Mr. Aashik Motwani @ 987373151 & Mr. Vikas J @ 870094755 as above mentioned Regional office of Bank.

**Special Instruction, Section 13(1) & Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.** (KMBL, on pre-specified date, while the bidders shall be quoting from their own home/offices/ places of their Bid as per their choice above the Reserve Price, Internet connectivity and other paraphernalia requirements shall have to be ensured by bidders themselves. Please note that failure of internet connectivity (due to any reason whatsoever it may be) shall be sole responsibility of bidders and neither KMBL nor C1 India Pvt Ltd shall be responsible for these unforeseen circumstances. In order to ward-off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/ alternatives whatever required so that they are able to quote/submit their bid and still be able to participate in the e-Auction successfully. However, it is requested to the Bidder(s) not to wait till the last moment to circumvent his/her Bid to avoid any such complex situations.

Place:- Delhi Date: 19.09.2024 Sd/- Authorised Officer, Kotak Mahindra Bank Ltd.

**Uno Minda Limited**  
(Formerly known as Minda Industries Ltd.)  
(CIN: L74899DL1992PLC050333)  
REGD. OFFICE: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052  
CORP. OFFICE: Village Nawada Fatehpur, P. O. Sikandarpur Badda, Near IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) - 122004  
Tel: +91 11 49373931/+91 124 2290427/28 Fax: +91 124 2290676/2290695  
E-mail: investor@unominda.com, Website: www.unominda.com

**POSTAL BALLOT NOTICE**

The shareholders of Uno Minda Limited are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules") as amended from time to time, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), inter-alia, for conducting Postal Ballot through E-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 03/2022 dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, and 09/2023 dated 25th September, 2023 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") read with applicable SEBI Circulars, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") read with applicable circulars under the Act and Listing Regulations, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and notified by MCA and subject to other applicable laws and regulations, if any for the time being in force, the approval of the shareholders of Uno Minda Limited (the "Company") is sought for the following Resolutions by way of remote e-voting ("e-voting") process:-

Item No.	Description of the Resolution	Type of Resolution
1	To approve the appointment of Dr. Sandhya Shekhar (DIN: 06986369) as a Non-Executive Independent Director of the Company	Special

Pursuant to the MCA circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Wednesday, September 18, 2024 through electronic mode to those shareholders, whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) as on Friday, September 13, 2024 ("Cut-off date").

The Company hereby request all its members holding equity shares in physical mode to intimate/ update their e-mail ID to Company/ RTA by sending a communication either at [csml@unominda.com](mailto:csml@unominda.com) or [virenders@balankit.com](mailto:virenders@balankit.com) by providing necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card). Members holding equity shares in demat mode are requested to contact their respective Depository Participants to register/ update their e-mail ID. The Detailed process is also mentioned in the Postal Ballot Notice.

The said Notice is also available on the website of the company [www.unominda.com](http://www.unominda.com), the relevant section of the website of BSE Limited (BSE) [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) on which the equity shares of the company are listed and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

In accordance with the provisions of the MCA circulars, members can vote only through remote e-voting process. The voting rights of the members shall be reckoned in proportion to his/ her share of the paid-up equity share capital of the Company held by them as on the Cut-off date. Any person who is not a shareholder of the company as on the cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for the purpose of providing e-voting facilities to all its members. The remote e-voting shall commence online from Thursday, September 19, 2024 from 9.00 a.m. and shall end on Friday October 18, 2024 till 5.00 p.m. E-voting will be blocked by NSDL immediately thereafter and voting will not be allowed beyond the said date and time.

The Board has appointed Mr. Rupesh Agarwal (AC No. 16302, CP No. 5673), or failing him Mr. Shashikan Tiwari (FCS No. 11919, C.P. No.: 13050), or failing him, Mr. Lakhyan Gupta (FCS No. 12682, C.P. No.: 26704), Partners of M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, as "Scrutinizer", to scrutinize the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free No.: 022-48867000 and 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager NSDL at

**FINANCIAL EXPRESS**

**EAST COAST RAILWAY**  
**CORRIGENDUM No. - 1 to Tender Notice No.: CPMGSUWAT/ENG0204009, Dated 23.08.2024**  
 Necessary modification has been made: (1) 2.2.2.6 (i) - (Eligible Experience) - Modified. (2) Appendix-VII of RFP (Para 1.2.4 of RFP) - Modified and attached BG format. (3) Sl. No. 26 of Attached Document (9. Fixed Roof working Platform plan)- Stands Deleted.  
 (H) PRE BID QUARIES : Railway Remarks on queries received during Pre-Bid meeting and attachments have been uploaded on [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in); dated : 11.09.2024. For detailed corrigendum please visit website : [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in). All other terms & conditions will remain unchanged.  
**Pr. Chief Engineer (GSU), PR-531/PY-24/25 Waltair**

**Uno Minda Limited**  
 (Formerly known as Minda Industries Ltd.)  
**(CIN: L74899DL1992PLC050333)**  
**REGD. OFFICE:** B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052  
**CORP. OFFICE:** Village Nawada Fatehgar, P. O. Sikandarpur Badda, Near IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) - 122004  
**Tel: +91 11 49373931/+91 124 229042/28 Fax: +91 124 2290676/2290695**  
**E-mail: investor@unominda.com, Website: www.unominda.com**

**POSTAL BALLOT NOTICE**  
 The shareholders of Uno Minda Limited are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules") as amended from time to time, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), inter-alia, for conducting Postal Ballot through E-voting vide General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 03/2022 dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, and 09/2023 dated 25th September, 2023 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") read with applicable SEBI Circulars, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") read with applicable circulars under the Act and Listing Regulations, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and notified by MCA and subject to other applicable laws and regulations, if any for the time being in force, the approval of the shareholders of Uno Minda Limited (the "Company") is sought for the following Resolutions by way of remote e-voting ("e-voting") process:-

Item No.	Description of the Resolution	Type of Resolution
1.	To approve the appointment of Dr. Sandhya Shekhar (DIN: 06986369) as a Non-Executive Independent Director of the Company	Special

Pursuant to the MCA circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Wednesday, September 18, 2024 through electronic mode only to those shareholders, whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) as on Friday, September 13, 2024 ("Cut-off date").

The Company hereby request all its members holding equity shares in physical mode to intimate/ update their e-mail ID to Company/ RTA by sending a communication either at [csml@unominda.com](mailto:csml@unominda.com) or [virenders@alankit.com](mailto:virenders@alankit.com) by providing necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card). Members holding equity shares in demat mode are requested to contact their respective Depository Participants to register/ update their e-mail ID. The Detailed process is also mentioned in the Postal Ballot Notice.

The said Notice is also available on the website of the company [www.unominda.com](http://www.unominda.com), the relevant section of the website of BSE Limited (BSE) [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) on which the equity shares of the company are listed and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

In accordance with the provisions of the MCA circulars, members can vote only through remote e-voting process. The voting rights of the members shall be reckoned in proportion to his/ her share of the paid-up equity share capital of the Company held by them as on the Cut-off date. Any person who is not a shareholder of the company as on the cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for the purpose of providing e-voting facilities to all its members. The remote e-voting shall commence online from Thursday, September 19, 2024 from 9.00 a.m. and shall end on Friday October 18, 2024 till 5.00 p.m. E-voting will be blocked by NSDL immediately thereafter and voting will not be allowed beyond the said date and time.

The Board has appointed Mr. Rupesh Agarwal (ACS No. 16302, CP No. 5673), or failing him Mr. Shashikant Tiwari (FCS No. 11919, C.P. No.: 13050), or failing him, Mr. Lakhyan Gupta (FCS No. 12682, C.P. No.: 26704), Partners of M/s. Chandrasekaran Associates, Company Secretaries, as "Scrutinizer", to scrutinize the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free No.: 022-48867000 and 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager NSDL at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or may contact the undersigned at e-mail id: [csml@mindagroup.com](mailto:csml@mindagroup.com).

The Scrutinizer will submit his report after completion of scrutiny of the e-voting to the Chairman or in his absence, any other Director or the Company Secretary ("authorised person"), duly authorised in writing by the Chairman and the results of the Postal Ballot will be announced on or before Monday, October 21, 2024 by the Chairman or in his absence by authorised person shall be intimated to the stock exchanges, published in the newspapers and also displayed alongwith the Scrutinizer's Report on the website of the Company [www.unominda.com](http://www.unominda.com) as well as on NSDL's website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)

By order of the Board of Uno Minda Limited  
 Tarun Kumar Srivastava  
 Company Secretary & Compliance Officer  
 Membership no. ACS-11994  
 Date : September 18, 2024  
 Place : Gurugram (Haryana)

**ASHIANA HOUSING LTD.**  
 CIN: L70109WB1986PLC040864  
**Regd. Off. :** 5F, Everest, 46/C, Chouringhee Road, Kolkata - 700 071  
**Head Off. :** Unit No. 4 & 5, 11/rd Floor, Southern Park, Plot No. D-2 Saket District Centre, New Delhi -110 017  
 Website: [www.ashianahousing.com](http://www.ashianahousing.com)  
 Email: [investorrelations@ashianahousing.com](mailto:investorrelations@ashianahousing.com)

**PUBLIC NOTICE**  
 This is to inform to all concerned that the company has received request along with necessary indemnity bond and affidavit from shareholder(s) of the company to issue duplicate share certificate in lieu of the lost share certificate, details of which is given herein below:

Sl. No.	Name of Regd. Shareholder	L.F. No.	Share Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
1.	Baid Nath Mahto	0020585	3951	7464816-7469190	4375

Since the company is in the process of issuing duplicate share certificate, any person who has objection on this issue, may lodge his objection within 15 days from the date of appearance of this advertisement to the company or its Registrar M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110 062.

For Ashiana Housing Ltd.  
 Sd/-  
**Nitin Sharma**  
 (Company Secretary)  
 Place : New Delhi  
 Date : 17th September, 2024

**ASHIANA HOUSING LTD.**  
 CIN: L70109WB1986PLC040864  
**Regd. Off. :** 5F, Everest, 46/C, Chouringhee Road, Kolkata - 700 071  
**Head Off. :** Unit No. 4 & 5, 11/rd Floor, Southern Park, Plot No. D-2 Saket District Centre, New Delhi -110 017  
 Website: [www.ashianahousing.com](http://www.ashianahousing.com)  
 Email: [investorrelations@ashianahousing.com](mailto:investorrelations@ashianahousing.com)

**PUBLIC NOTICE**  
 This is to inform to all concerned that the company has received request along with necessary indemnity bond and affidavit from shareholder(s) of the company to issue duplicate share certificate in lieu of the lost share certificate, details of which is given herein below:

Sl. No.	Name of Regd. Shareholder	L.F. No.	Share Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
1.	Binay Krishna Mahto	0020586	3952	7469191-7473565	4375

Since the company is in the process of issuing duplicate share certificate, any person who has objection on this issue, may lodge his objection within 15 days from the date of appearance of this advertisement to the company or its Registrar M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110 062.

For Ashiana Housing Ltd.  
 Sd/-  
**Nitin Sharma**  
 (Company Secretary)  
 Place : New Delhi  
 Date : 17th September, 2024

**CLASSIFIEDS**  
**OTHER CLASSIFIEDS**  
**CHANGE OF NAME**

**FARSHAD ALI alias FARSHAD HYDER S/O HYDER ALI R/O O/C Connaught Mansion Shahid Bhagat Singh Road Colaba Mumbai Maharashtra-400005 changed my name to FARSHAD HYDER ALI.**  
 0040750033-1

**VRUSHALI NAMDEO NIKAM D/O NAMDEO PANDURANG NIKAM W/O PUSHPENDRA KUMAR SINGH R/O Flat-704 Floor-9B Kalpataru Estate Phase-3 Pimple Gurav Pune Maharashtra-411061 changed my name to VRUSHALI NIKAM SINGH.**  
 0040750033-2

**"IMPORTANT"**  
 Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any notices or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**RAJKAMAL SYNTHETICS LIMITED**  
 CIN: L45100MH1981PLC024344  
**Regd. Off. :** 411, Atlanta Estate Premises Co. Op. Soc. Ltd., G.M Link Road, Goregaon (East), Mumbai - 400063.  
 Email: [rajkamalsynthetics@gmail.com](mailto:rajkamalsynthetics@gmail.com) Contact No. 022-48255368,46056970.

**NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION**  
 Notice is hereby given that pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 also read with the Circular no.14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and the latest being General Circular no.9/2023 dated 25th September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the company is seeking consent for agenda items as set out in the postal ballot notice dated 18/09/2024. The Postal Ballot Notice is available on company's website [www.rajkamalsynthetics.com](http://www.rajkamalsynthetics.com) and on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and on the website of Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

The detailed procedure/ instructions for e-voting forms part of the Postal Ballot Notice. The Company has completed the dispatch of Notice of Postal Ballot on 18/09/2024 to the Members whose names appear in the Company's Register of Members as at the closure of business hours on 13/09/2024 (cut-off date) by the permitted mode of dispatch and person who is not a member as on the record date should treat this Notice for information purposes only. Voting through electronic means shall commence from Thursday, 19/09/2024 at 9.00 a.m. and end on Friday, 18/10/2024 at 5.00 p.m. Voting through electronic means shall not be allowed and e-voting module shall be disabled by CDSL upon expiry of the aforesaid voting period.

Mr. Mehul Raval, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for the Postal Ballot. In pursuance of Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company has engaged the services of CDSL to provide electronic voting facilities to the Members of the Company.

In case of any query pertaining to e-voting, you may refer to the FAQs for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available at the download section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or call at toll free no. 1800 21 09911.

The results of the postal ballot will be announced within 2 working days from the last date of e-voting along with the scrutinizer Report will be displayed at the Registered Office of the Company & also hosted on the website of the Company ([www.rajkamalsynthetics.com](http://www.rajkamalsynthetics.com)), website of CDSL ([www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)) and will also be intimated to BSE ([www.bse.com](http://www.bse.com)) where the shares of the company are listed.

For Rajkamal Synthetics Limited  
 Sd/-  
**Ankur Ajmera**  
 Managing Director & CEO  
 Place: Mumbai  
 Date: 18<sup>th</sup> September, 2024

**भारतीय रिजर्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

**Auction of Government of India Dated Securities for ₹31,000 crore on September 20, 2024**  
 Government of India (GOI) has announced the sale (re-issue) of two dated securities:

Sr. No.	Nomenclature	Notified amount Nominal (In ₹ Crore)	Earmarked for Retail Investors* (in ₹ Crore)
1.	7.10% GS 2034	20,000	1,000
2.	7.34% GS 2064	11,000	550

GOI will have the option to retain additional subscription up to ₹2,000 crore against each security mentioned above. The sale will be subject to the terms and conditions set out in this notification (called 'Specific Notification'). The stocks will be sold through Reserve Bank of India Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400001, as per the terms and conditions specified in the General Notification FNo.4(2)-W&M/2018, dated March 27, 2018.

The auction will be conducted using multiple price method. The auction will be conducted by RBI, Mumbai Office, Fort, Mumbai on **September 20, 2024 (Friday)**. The result will be announced on the same day and payment by successful bidders will have to be made on **September 23, 2024 (Monday)**.

For further details, please see RBI press release dated **September 13, 2024** on the RBI website - ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)).

**Attention Retail Investors\***  
 ("PFs, Trusts, RRBs, Cooperative Banks, NBFCs, Corporates, HUFs and Individuals")

Retail investors can participate in the auctions for the amounts earmarked for them on a non-competitive basis through a bank or a primary dealer. Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (<https://rbidirect.org.in>). For more information, detailed list and telephone numbers of primary dealers/bank branches and application forms please visit RBI website ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) or FIMMDA website ([www.fimmda.org](http://www.fimmda.org)).

**Government Stock offers safety, liquidity and attractive returns for long duration.**

**"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"**

**GOODDAY VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION**  
 DIN: U29190MH1992PTC065241  
**Regd. Add: 133 Clover Centrecamp 7, Moleadina Road Na Pune Mh 411001.**

**E-Auction Notice**  
 Sale of Assets of Corporate Debtor on Standalone Basis under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 r/w IBI (Liquidation Process) Regulations, 2016.  
**Date and Time of E-Auction: 22nd October 2024 at 11:00 AM to 02:00 PM**  
 (With the unlimited extension of 10 minutes each)

Sale of Assets of Corporate Debtor on Standalone basis by the liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide order dated 03rd March 2023 in I.A. 2883 OF 2021 IN C.P.(IB) No. 3060 of 2019. The sale will be done by the undersigned through the E-auction platform <https://eauctions.co.in> (Linkstar Infosys Private Limited).

Details of Assets	Block	Reserve Price	Earnest Money Deposit	Incremental Value
Residential House No. B-2 & C-3, Mon Castle, Survey No. 68/1, 68/2, 68/3/1, 68/3/2a, 68/4, 68/5, 68/6, Utopia Co-op. Hsg. Soc. Woranave, Taluka: Haveli, Pune area measuring 4150 Sq. Ft. in total. (Row House Property) along with the inventory present inside the Row House Property such as Furniture & Fixtures, Electronic Appliances and other household items	1	₹ 4,54,04,437.00	₹ 45,40,000.00	₹ 2,00,000.00

Last date of submission of Eligibility Documents  
**4th October 2024** in the manner mentioned in detail E-auction Process Document  
**7th October 2024**  
 Declaration of Eligibility Bidder  
**From 8th October, 2024 to 16th October, 2024.**  
 Inspection of Assets of Corporate Debtor  
**From 8th October, 2024 to 16th October, 2024.**  
 Last Date for submission of Earnest Money Deposit  
**19th October, 2024**  
 Date and time of E-Auction for qualified bidders  
**22nd October, 2024 at 11:00 AM to 02:00 PM**

**Terms & Conditions of the sale is as under:**  
 1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS BASIS" AND "NO RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider Linkstar Infosys Private Limited Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar): **Contact person: Mr. Dixit Prajapat** Email: [td-admin@eauctions.co.in](mailto:td-admin@eauctions.co.in), Mobile No.: +91 9870099713  
 2. Documents shall be submitted to Liquidator through email and hard copy in the format prescribed in the detailed E-auction Process Document on or before 4th October 2024. The bid form along with detailed terms & conditions of the complete E-auction process can be downloaded from the website <https://eauctions.co.in>.  
 3. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor/bidder without assigning any reason and without any liability.  
 4. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the detailed E-Auction Process Document, prior to submission of EMD and participation in the process. The Liquidator can be contacted at [liq.gooddayventures@gmail.com](mailto:liq.gooddayventures@gmail.com)  
**CA Prashant Jain**  
 Date: 19.09.2024  
 Place: Navi Mumbai  
 Liquidator - Goodday Ventures India Private Limited  
 IBI Reg. No: IBI/PA-001/1P-P01368/2018-2019/12131  
 Email ID: [iprashantjain@gmail.com](mailto:iprashantjain@gmail.com); [liq.gooddayventures@gmail.com](mailto:liq.gooddayventures@gmail.com)  
 Correspondence Address: SSARVI Resolution Services LLP, B-610, BESEL Tech Park, Sec. 30 A, Vashi, Navi Mumbai- 400 705  
 Contact No: +91 9082607703 (Call on WhatsApp)

**Reg. Office Address:**  
 Room No. 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road New Delhi, 110001  
 CIN: L70101DL2005GOI132162  
**Website:** [www.hpil.co.in](http://www.hpil.co.in)  
**Email:** [info@hpil.co.in](mailto:info@hpil.co.in)  
**Tel:** 011-23061915.

**HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED**  
 (A Government of India Enterprise)  
**हेमीस्फेर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड**  
 (भारत सरकार का उपक्रम)

**NOTICE OF POSTPONEMENT OF 20<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**  
 Members are hereby informed that 20<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Hemisphere Properties India Limited which was scheduled to be held on Wednesday, 25<sup>th</sup> September 2024 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) is now postponed and shall be rescheduled at **Sunday, 29<sup>th</sup> September, 2024 at 11:30 am (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM)** due to some unavoidable circumstances. The revised relevant date are as under:

Particulars	Relevant dates
Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to vote through remote e-voting before the AGM / e-voting during the AGM.	Monday, September 23, 2024
Period of remote e-voting to enable shareholders as on the Cut-off date to cast their votes on proposed resolutions electronically.	Thursday, September 26, 2024 (0900 hours) and ends on Saturday, September 28, 2024 (1700 hours).
Date of Book Closure of Register of Members	Monday, September 23, 2024 to Sunday, September 29, 2024

The Copy of Annual Report are available on [www.hpil.co.in](http://www.hpil.co.in) and is also available on the website of website of CDSL i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively.  
 The Members may note that except for date of Annual General Meeting and aforesaid dates, all the details mentioned in Notice of 20<sup>th</sup> Annual General Meeting and Annual report shall remain same.  
**INSTRUCTIONS FOR MEMBERS**  
 Detailed procedure for attending the AGM through VC / OAVM and remote e-voting before the AGM / e-voting during the AGM are provided in the Notice of the 20<sup>th</sup> AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or contact toll free no. 1800 21 09911. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to:  
 Mr. Rakesh Dalvi,  
 Sr. Manager,  
 Central Depository Services (India) Limited,  
 A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013  
 or send an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or call toll free no. 1800 22 55 33.  
 The result of the voting will be declared within two working days of the conclusion of the Meeting and will be placed on the website of the Company and the Stock Exchanges. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or contact at toll free no. 1800 21 09911.

For Hemisphere Properties India Limited  
 Sd/-  
**Lulna**  
 Company Secretary & Compliance Officer  
 Date : 17.09.2024  
 Place: New Delhi

**EXPRESS Careers**

**SWAMI RAMANAND TEERTH MARATHWADA UNIVERSITY, NANDED - 431606 (MS)**

**APPOINTMENT ADVERTISEMENT**  
 Advt.No.SRTMUN/ESTT/03/SP/2024-25/1610 Date : 13/09/2024  
 Applications are invited for the following posts in the University in prescribed format.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Category
01	Registrar	01	Unreserved
02	Director of Board of Examinations and Evaluation	01	Unreserved
03	Director of Sub-Campus, Latur	01	Unreserved
04	Director of Innovation, Incubation and Linkages	01	Unreserved
05	Director of Knowledge Resource Center	01	Unreserved
06	Director of Sports and Physical Education	01	Unreserved

Applicant shall apply on the prescribed application form of this University Only. The application form and other information like educational qualification, experience & pay scale etc. is available on university website : [www.srtmun.ac.in](http://www.srtmun.ac.in) and on State Govt. website : [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in)

The Last date for submitting application in prescribed form on 15/10/2024, up to 05:40 p.m. Registrar

**Bharati Vidyapeeth**  
 Bharati Vidyapeeth, Bhavan, Lal Bahadur Shastri Marg, Pune 411030.

**UNAIDED**  
 APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE FOLLOWING POST TO BE FILLED IN BHARATI VIDYAPEETH'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH, OPP. KONKAN BHAVAN, SECTOR-8, C.B.D. BELAPUR, NAVI MUMBAI 400614.

**DIRECTOR**  
**FROM THE ACADEMIC YEAR 2024-2025**  
 The above post is open to all however candidates from any category can apply for the post.  
 Reservation for women will be as University Circular No. BCC/16/74/1998 dated 10th March, 1998.4% reservation shall be for the persons with disability as per University Circular No. Special Cell / ICC /2019-20 / 05 dated 05th July, 2019.  
 Candidate having knowledge of Marathi will be preferred.  
 The Educational Qualification, Experience & pay scale- for the post of Director is as prescribed by the University of Mumbai, AICTE & DTE from time to time.  
 Please refer University Circular No. मसिमाक / विमिमाक / तंत्रशिक्षण / 11/ 2020-2021 दिनांक 11 जानेवारी 2021 for qualifications and experience at the time of interview.  
 Applicants who are already employed must send their application through proper channel. Applications are required to account for breaks, if any in their academic career.  
 Applications with full details should reach to the **SECRETARY, Bharati Vidyapeeth Bhavan, 4th Floor, Bharati Vidyapeeth Central, L.B.S. Marg, Pune 411030 within 15 days** from the date of publication of this advertisement. This is University approved advertisement.

**SECRETARY**  
 Bharati Vidyapeeth

**IDBI BANK**  
 Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 - Tel. (022) 6655 3355  
 CIN: L65190MH2004GO146838

**IDBI Bank Ltd.**  
 Advertisement No. 08/ 2024-25

**Appointment of Head-Data Analytics, Deputy- Chief Technology Officer - Digital & Data Protection Officer (DPO) - On Contract**

S.N.	Post Name	Vacancy	Last Date of application
1	Head - Data Analytics	1	September 27, 2024
2	Deputy - Chief Technology Officer (CTO) - Digital	1	
3	Data Protection Officer	1	

For eligibility criteria (age, work experience, job profile etc.) and other details, please visit the 'Careers' section of the Bank's website [www.idbibank.in](http://www.idbibank.in)

**NOTE:** IDBI Bank reserves the right to accept or reject any/ all application(s) without assigning any reason(s) whatsoever. Any addendum/modifications with regards to the selection process shall only be published on the Bank's website (career section) [www.idbibank.in](http://www.idbibank.in) and not through any other media. Candidates are requested to regularly visit the website as above, for update in the matter.

Place - Mumbai **General Manager- HRD**

**दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड**  
**THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD.**  
 Regd. & Head Office : 87, M.G. Road, Fort, Mumbai-400001.  
 CIN No: L66000MH1919GOI000526 | IRDA Registration No: 190


**ENGAGEMENT OF 325 APPRENTICES FOR TRAINING**  
 The New India Assurance Company Limited, a leading Public Sector General Insurance Company, invites applications for engagement of **325 Apprentices** from open market under the **Apprentices Act 1961** (as amended from time to time).  
**Mode of Application :-** The candidates are requested to apply through online mode only between **21.09.2024 to 05.10.2024 (both days inclusive)**. No other means / mode of application will be accepted.  
**Age (as on 01.09.2024) :-** Minimum Age : 21 years; Maximum Age : 30 years.  
**Educational Qualification (as on 01.09.2024) :-** Graduate from a recognized University / Equivalent. Knowledge of Regional Language of the State/UT for which the candidate is applying is essential.  
**Stipend :-Rs. 9,000/- p.m.**  
**Period of Training :- 1 year**  
 This notice is for information only. For details of State / UT & category-wise, State wise training seats and for online application and detail advertisement, please visit 'Information and Help' section of our web site <http://www.newindia.co.in> and <https://bfsissc.com>. MUMBAI

**Bharati Vidyapeeth**  
 Bharati Vidyapeeth, Bhavan, Lal Bahadur Shastri Marg, Pune 411030.

**UNAIDED**  
 APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE FOLLOWING POST TO BE FILLED IN BHARATI VIDYAPEETH'S INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY, OPP. KONKAN BHAVAN, SECTOR-8, C.B.D. BELAPUR, NAVI MUMBAI 400614.

**PRINCIPAL**  
**FROM THE ACADEMIC YEAR 2024-2025 (M.C.A.)**  
 The above post is open to all however candidates from any category can apply for the posts.  
 Reservation for women will be as University Circular No. BCC/16/74/1998 dated 10th March, 1998.4% reservation shall be for the persons with disability as per University Circular No. Special Cell / ICC /2019-20 / 05 dated 05th July, 2019.  
 Candidate having knowledge of Marathi will be preferred.  
 The Educational Qualification, Experience & pay scale- for the post of Principal is as prescribed by the University of Mumbai, AICTE & DTE from time to time.  
 Please refer University Circular No. मसिमाक / विमिमाक /

# 2 कंपनी समाचार



# संक्षेप में सौर सेल विनिर्माण में कदम रखेगी गौतम सोलर

सौर मॉड्यूल विनिर्माता गौतम सोलर ने दो गीगावॉट क्षमता वाली इकाई में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना के साथ सौर सेल निर्माण में कदम रखने की बुधवार की घोषणा की। गौतम सोलर ने बुधवार को बयान में कहा कि यह इकाई कंपनी को घरेलू स्तर पर बने पैतृकों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगी। यह स्थानीय रूप से विनिर्मित उपकरणों की जरूरत वाली सरकार-समर्थित सब्सिडी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बयान के मुताबिक, कंपनी का लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले सौर सेल पेश करके अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना है। कंपनी घरेलू सौर बाजार पर हावी चीनी विनिर्माताओं के समक्ष खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है।

भाषा

## बैटरी भंडारण में उतरी जिंदल इंडिया रिन्यूएबल

बीसी जिंदल समूह की कंपनी जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी ने बैटरी ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में कदम रखा है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की योजना 2025 तक लीथियम आयरन फॉस्फेट (एलएफपी) रसायन के साथ एक गीगावॉट (1,000 मेगावॉट) बैटरी पैक असेंबली लाइन बनाने की है। साथ ही कंपनी 2027 तक पांच गीगावॉट क्षमता के साथ बैटरी सेल विनिर्माण क्षेत्र में कदम रखेगी। इसे हासिल करने के लिए कंपनी एक विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ साझेदारी करेगी।

भाषा

## एमएनएस इंडिया ने किया हजार करोड़ का निवेश

मूल्यवर्धित उत्पादों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देते हुए आर्सेलरमितल निरॉन स्टील इंडिया (एमएनएस इंडिया) ने आर्सेलरमितल के पोर्टफोलियो के लिए एक वैश्विक उत्पाद मैनेजिस की उत्पादन लाइन तैयार करने में करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। उत्पादन लाइन की

क्षमता सालाना 5 लाख टन की है और इसे गुजरात के हजीरा में एमएनएस इंडिया के संयंत्र में लगाया गया है। स्टील के वैश्विक विनिर्माताओं आर्सेलरमितल और निरॉन स्टील के संयुक्त उद्यम के मुताबिक मैनेजिस क्षरण प्रतिरोधी है और खुद से ठीक हो सकता है। इस गुण के कारण ही यह सौर

परियोजनाओं के लिए आदर्श बन जाता है। एमएनएस इंडिया ने कहा कि वह अदाणी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनटीपीसी सहित भारत के अक्षय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों को भी मैनेजिस की आपूर्ति करने पर बातचीत कर रही है।

## ऊनो मिंडा लिमिटेड

(पूर्व की मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड)  
(सीआइएन: L74899DL1992PLC050333)  
पंजीकृत कार्यालय: बी-64/1, वजीपुर, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052  
कॉर्पोरेट कार्यालय: ग्राम नवादा फतेहपुर, पी.ओ. निम्कन्दपुर बद्दा, निकट आईएचटी मनेसर, गुरुग्राम (हरियाणा)-122004  
दूरभाष: +91114937 3931, +91 124 2290427/28 फैक्स: +91 124 2290676/2290695  
ई-मेल: investor@unominda.com, वेबसाइट: www.unominda.com



### पोस्टल बैलट नोटिस

ऊनो मिंडा लिमिटेड (पूर्व की 'मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड') के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित कंपनी (वर्षान्वे और प्रशासन) नियम 2014, ('नियम') के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, अन्य बातों के साथ-साथ ई-वॉटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट संचालित करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के लिए जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 03/2022 दिनांक 05 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 (इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'सामान्य परिपत्र' संदर्भित) के साथ पठित प्रत्येक सेबी परिपत्र, यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और इकटान अधीन) दिनांक 2015 के नियम 44 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित अधिनियम एवं सूचीबद्धता विनियम के तहत प्रत्येक परिपत्र, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैलटों पर जारी सचिवीय मानक ('एएएस-2') और किसी भी वैधानिक संशोधनों या नए अधिनियमों सहित, तात्कालिक तौर पर लागू किसी भी अन्य लागू कानून, नियमों और विनियमों के अनुसार, निम्नलिखित संकल्पों के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन रिमोट ई-वोटिंग ('ई-वोटिंग') प्रक्रिया द्वारा मांगा जाता है:-

यद सं.	संकल्प का विवरण	संकल्प का प्रकार
1	कंपनी के गैर-एक्जीक्यूटिव स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. स्याम सेखर (सीआइएन: 069886369) की नियुक्ति का अनुमोदन	विशेष

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने शुक्रवार, 18 सितंबर, 2024 को व्याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलट नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी हैं, जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') तक कंपनी/आरटी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। कंपनी एतद्द्वारा भौतिक मोड में इविटरी शेयर रखने वाले अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे अपनी ई-मेल आईडी को कंपनी/आरटीओ को csml@unominda.com या virenders@alankit.com पर एक संवार भेजकर सूचित/अपडेट करें, जिसमें फोन/ईमेल नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें। डीमैट मोड में इविटरी शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी को पंजीकृत/अपडेट करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें। पोस्टल बैलट नोटिस में विस्तृत प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट [www.unominda.com](http://www.unominda.com), बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एएएसई) की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) के संबंधित अनुभाग, जिस पर कंपनी के इविटरी शेयर सूचीबद्ध हैं, और नेशनल सिस्कोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही मतदान कर सकते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकारों की गणना कटऑफ तिथि पर उनके द्वारा धारित कंपनी की चुकता इविटरी शेयर पुंजी के उनके हिस्से के अनुपात में की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कटऑफ तिथि पर कंपनी का शेयरधारक नहीं है, वह पोस्टल बैलट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से ही उपयोग करेगा। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिस्कोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे से ऑनलाइन शुरू होगी और शुक्रवार 18 अक्टूबर, 2024 को शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके तुरंत बाद एनडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। वोटों में श्री श्रेष्ठा अग्रवाल (एसीएस नंबर 16302, सीपी नंबर 5673) को, या उनके स्थान पर श्री शशीकान्त तिवारी (एफसीएस नंबर 11919, सीपी नंबर 13050), या उनके स्थान पर श्री लखन गुप्ता (एफसीएस नंबर 12682, सी.पी. नंबर: 26704), मेमर्स चन्देश्वरन एसोसिएट्स, कंपनी सचिव के प्राधिकृत को पोस्टल बैलट प्रक्रिया को नियंत्रण और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए 'संबीक्षक' के रूप में नियुक्त किया गया है। किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध 'Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders' तथा 'e-voting user manual for shareholders' देख सकते हैं या टेलर फ्री नंबर: 022-48867000 और 022-24997000 पर कॉल कर सकते हैं या सुबह पल्लवी महार - वरिष्ठ प्रबंधक एएएसडीएल को [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुसंधान भेज सकते हैं या ई-मेल आईडी: [csml@mindagroup.com](mailto:csml@mindagroup.com) पर अनौपचारिक रूप से संपर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद संबीक्षक अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी अन्य निदेशक या कंपनी सचिव ('अधिकृत व्यक्ति') को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और पोस्टल बैलट के परिणामों को घोषणा समाचार, 21 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले अध्यक्ष द्वारा की जाएगी या उनकी अनुपस्थिति में अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और स्क्रीनटॉलर को रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट [www.unominda.com](http://www.unominda.com) के साथ-साथ एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

कृते एवं हिते ऊनो मिंडा लिमिटेड तरुण कुमार श्रीवास्तव कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं. ACS-11994

# जी का डिज्नी स्टार के 94 करोड़ डॉलर हर्जाने से इनकार

रोशानी शेखर मुंबई, 18 सितंबर

स्टार इंडिया ने आईसीसी टीवी प्रसारण अधिकार करार खत्म करने के एवज में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के खिलाफ मामला दायर किया है और 94 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति का दावा किया है। जी की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी से यह पता चला है। जी एंटरटेनमेंट ने कहा है कि स्टार इंडिया (अब डिज्नी स्टार) ने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन में अपील दायर कर हर्जाना मांगा है।

स्टार इंडिया को जी एंटरटेनमेंट तय समयसीमा में 1.4 अरब डॉलर भुगतान नहीं कर सका। इसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। जी ने अपने तर्क में कहा कि 20 करोड़ डॉलर के भुगतान की पहली किस्त चुकाने में विफल रहने के बाद वह भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। इससे पहले जी ने खुलासा किया था कि स्टार इंडिया मौजूदा मध्यस्थता प्रक्रिया में क्षतिपूर्ति मांग रही है लेकिन अभी उसकी राशि तय नहीं है।

जी ने बयान में कहा, 'कंपनी स्पष्ट रूप से स्टार के सभी अपूर्ण दावों का जोरदार से प्रतिवाद करती है।' कंपनी ने कहा, 'मध्यस्थता अभी शुरूआती चरण में है



और लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन को अभी तो यह तय करना है कि कंपनी पर कोई देनदारी बनती है या नहीं। कंपनी गुण-दोष के आधार पर स्टार के बेवुनियाद दावों का विरोध करेगी और अपने सभी अधिकार अधूण रखेगी।' नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जी एंटरटेनमेंट का शेयर 1.35 फीसदी गिरकर 131.20 रुपये पर बंद हुआ। विश्लेषकों ने नाम उच्चारण नहीं करने की शर्त पर बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि कंपनी के मौजूदा वित्तीय पुनर्गठन से प्रतिवाद करती है।' कंपनी ने कहा, 'मध्यस्थता अभी शुरूआती चरण में है।

उन्होंने कहा कि निवेशकों की भावना का पता लगाना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि जी के शेयर भाव में खास गिरावट नहीं आई है। लेकिन सकारात्मक के बेवुनियाद दावों का विरोध करेगी और अपने सभी अधिकार अधूण रखेगी।' मार्च में यह मुकदमा शुरू हुआ था। बाद में स्टार इंडिया ने लंदन मध्यस्थता पंचाट में मामला दायर किया। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार स्टार ने 16 सितंबर को लंदन मध्यस्थता अदालत के समक्ष हर्जाने की मांग रखते हुए यह घोषित करने का भी अनुरोध किया कि उसने जी एंटरटेनमेंट के साथ गठजोड़

करार खत्म कर दिया है। स्टार ने मध्यस्थता अधिकरण के फैसले की तारीख के आधार पर हर्जाना तय किए जाने की भी मांग की है।

जी एंटरटेनमेंट और स्टार इंडिया के बीच मूल समझौते पर 26 अगस्त, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत जी आईसीसी के प्रमुख आयोजनों की अहम प्रसारक थी जिसमें आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का प्रसारण अधिकार भी शामिल है। इसके तहत स्टार इंडिया ने 2024-27 तक के लिए आईसीसी पुरुष टूर्नामेंटों के लिए जी को टीवी प्रसारण का उप-लाइसेंस दिया, जिसे बाद में अनुबंध संबंधी उल्लंघनों के आरोपों का हवाला देते हुए अगस्त 2024 में समाप्त कर दिया गया।

जी ने दावा किया कि स्टार इंडिया ने समझौते का उल्लंघन करते हुए करीब 80 लाख डॉलर के भुगतान की मांग की। इसके अलावा पिछले महीने जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने 10 अरब डॉलर के अपने विफल विलय पर एक-दूसरे के खिलाफ सभी दावों को सुलझा दिया है और स्टार इंडिया ने 10 अरब डॉलर के अपने बेहतर मार्जिन हासिल करने के लिए पैसे भी जुटाए हैं और खर्च घटाने के लिए कर्मचारियों की छंटनी भी की है।

## समीर के सामने होगी एमेजॉन का भारतीय परिचालन बढ़ाने की चुनौती

पीरजादा अबरार बंगलूरु, 18 सितंबर

ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी एमेजॉन ने अपने 25 साल पुराने अनुभवी दिग्गज समीर कुमार को 1 अक्टूबर से कंपनी के भारतीय उपभोक्ता



कारोबार का प्रमुख बनाने की घोषणा की है। कुमार की पदोन्नति बीते दिनों मनीष तिवारी के इस्तीफे के बाद की गई है, जो बीते आठ वर्षों से एमेजॉन इंडिया का नेतृत्व कर रहे थे। कुमार की नई भूमिका पश्चिमी एशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किये में एमेजॉन के उपभोक्ता कारोबार के नेतृत्व के अतिरिक्त रहेगी। सन 1999 एमेजॉन में शामिल होने वाले समीर कुमार उस मुख्य टीम का हिस्सा था जिसने एमेजॉन इंडिया (एमेजॉन डॉट इन) की योजना बनाई और फिर साल 2013 में उसे पेश किया था। एमेजॉन ने 5 जून, 2013 को भारत में अपनी पहली शॉपिंग वेबसाइट की शुरुआत की थी और तब कंपनी सिर्फ किताबें बेचती थी। मुंबई के एक छोटे से गोदाम में उसके पास करीब 100 विक्रेता थे। विक्रेता अपनी इन्वेंट्री को अपने वाहनों से गोदाम तक ले

जाते थे क्योंकि तब उनके पास परिवहन की सुविधा नहीं थी। उस छोटे से गोदाम से शुरू होने वाली कंपनी के पास आज करीब 4.3 करोड़ घन फुट जगह और 12 लाख से अधिक विक्रेता हैं। एमर्जिंग मार्केट्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा, 'एमेजॉन के लिए भारत एक अहम प्राथमिकता बना हुआ है। हमारे पास एक मजबूत स्थानीय टीम है और उपरते बाजारों में समीर के अनुभवों के साथ हम भारत में ग्राहकों और कारोबार के लिए हमारी भविष्य की योजनाओं के बारे में और भी अधिक आशावादी हैं।' इस बदलाव के साथ ही एमेजॉन इंडिया की नेतृत्व टीम के सदस्य सौरभ श्रीवास्तव, हर्ष गोयल, अमित नंदा और आस्था जैन अब समीर को रिपोर्ट करेंगे। किशोर थोटा सीधे अमित को ही रिपोर्ट करेंगे।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला और यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र रहे कुमार फिलहाल अपनी नई भूमिका पर मनीष तिवारी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वह अपनी नई भूमिका 1 अक्टूबर से संभालेंगे और फिलहाल वह सिफ्टेल में हैं।

## रिलायंस इन्फ्रा, रिलायंस पावर ने बकाया चुकाया

अनिल अंबानी समूह की कंपनियों रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और उसकी सहायक कंपनी रिलायंस पावर ने ऋणदाताओं के साथ अपने ऋण का बड़ा हिस्सा निपटा दिया है, जिसमें रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने एकल आधार पर अपना बाहरी ऋण लगभग 87.6 प्रतिशत घटाकर 475 करोड़ रुपये कर दिया है, जो जून में 3,831 करोड़ रुपये था। शेयर बाजार को दी गई सूचना में यह जानकारी दी गई है। अनिल अंबानी परिवार का इन्फ्रास्ट्रक्चर

कंपनी ने कहा कि इन्वेंट एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट ने अपना बकाया वसूलने के लिए कुछ हिस्सा समायोजित कर दिया है। इसके अलावा स्वरूप कंपनी की इन्वेंट एआरसी के प्रति बकाया राशि शून्य हो गई है। इसके अलावा कंपनी के बयान के अनुसार उसने भारतीय जीवन बीमा निगम, एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और अन्य उधारदाताओं को

अपना पूरा बकाया चुका दिया है। कंपनी ने कहा कि कर्ज में इस कमी के साथ कंपनी की कुल संपति 9,041 करोड़ हो जाएगी। एक अलग नोटिस में रिलायंस पावर ने कहा कि उसने महाराष्ट्र स्थित कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर (वीआईपीएल) की ओर से गारंटर के रूप में सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट (सीएफएम) के प्रति 3,872.04 करोड़ रुपये के अपने दायित्व का निपटान कर दिया है। बीएस

## एआई अलायंस ने 7 भारतीय सदस्यों को शामिल किया

ओपन सोर्स एआई का समर्थन करने के लिए मेटा और आईबीएम जैसी कंपनियों की अगुआई वाले वैश्विक कंसोर्टियम 'एआई अलायंस' ने आज भारत से सप्त नए सदस्यों को जोड़ा। इनमें इन्फोसिस, एआई4भारत (आईआईटी मद्रास), आईआईटी गोंधपुर, किसानएआई, पीपुल+एआई, सर्वम एआई और वाधवानी एआई शामिल हैं। इन कंपनियों में आईआईटी बंबई भी शामिल है जो अलायंस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। साल 2023 में स्थापित इस समूह का उद्देश्य दुनिया भर में मूल्य, सुरक्षित और जिम्मेदार

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है। इसके 57 संस्थापक सदस्यों में एएमटी, डैटेल, ओरेकल और सोनी जैसी स्थापित कंपनियों से लेकर सेरेब्रास और स्टैबिलिटी एआई जैसी स्टार्टअप तक कई तरह की कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (सीईआरएन) और नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) जैसे सार्वजनिक संस्थानों के साथ-साथ एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विश्वविद्यालय भी इस पहल का हिस्सा हैं। बीएस

## साल जवाब एक से डेढ़ वर्ष में लाएंगे नए मॉडल

पिछले साल बिक्री में 33 फीसदी गिरावट दर्ज करने वाली रेनो इंडिया इस साल भी कठिन हालात का सामना कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी वेंकटराम मामिलापल्ले ने शाइन जैकब के साथ बातचीत में कंपनी की पुनरुद्धार योजनाओं, नई पेशकश रणनीति और क्विड के भविष्य के बारे में बताया। मुख्य अंश ...



रेनो इंडिया ने पिछले कैलेंडर वर्ष में सिर्फ 52,620 वाहनों की बिक्री की, जो साल 2022 के मुकाबले 33 फीसदी कम है। आपकी पुनरुद्धार रणनीति क्या है? हमने साल 2011 में इस्टर और क्विड पेश किया था। यह भारत में अपने वाली दो सफल मॉडल रही। हमने कई अन्य उत्पाद भी पेश किए मगर उन सभी ने उस समय जो संभव था वह किया। साल 2019 में हमने ट्राइबर बाजार में उतारा था और वह भी काफी सफल रही। हमने बगैर किसी प्रतिस्पर्धा के बेहतर प्रदर्शन किया था। हमें पता था कि ऐसी स्थिति हो जाएगी और हमने अपने सभी डीलरों को सभी सतर्क कर दिया था कि साल 2023 और 2024 कठिन होने वाला है। साल 2023 की शुरुआत में रेनो निप्पान ने हमारी छह नई पेशकश के लिए 5,300 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी। हम पहले ही 70 फीसदी रकम लगा चुके हैं और हम अब उसी दिशा में काम कर रहे हैं।

नए मॉडल कब तक लाने की योजना है? हम बहुत जल्द अपने नए मॉडल लाने की समयसीमा बताने वाले हैं, जिससे हमारा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। सभी मॉडल अगले एक से डेढ़ साल के भीतर आ जाएंगे। यह थोड़े-थोड़े अंतराल पर किया जाएगा क्योंकि सभी डीलर और ग्राहक इसमें तालमेल बिटाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। फिलहाल हम अपनी कुल 4.8 लाख संयंत्र क्षमता का सिर्फ 45 फीसदी ही चला रहे हैं। विस्तार से पहले हमें इसका पूरा उपयोग करना होगा।

मांग में गिरावट के साथ आप छोटों कारों का भविष्य कैसा देख रहे हैं? जब तक विनियमन की अनुमति है तब तक हम इस श्रेणी में बने रहेंगे और इससे बाहर नहीं निकलेंगे। आज हम एक लॉटर इंजन का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम इस उत्सर्जन से परे जाएंगे तो हमें इंजन बदलना होगा या कार का उत्पादन बंद करना होगा। यह ऐसा फैसला जिसे हम आज नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे वाहन कम से कम तब तक योग्य बने रहेंगे जब तक भारत में बीएस 7 नहीं आ जाता है। हमारे पास अभी पांच साल और हैं। अब सुरक्षा की बात आती है। हम छह एयर बैग के साथ आ सकते हैं और जब समय आया तब हम ऐसा करेंगे। हम सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए अपग्रेड करेंगे। हम कार का आकार नहीं बदलने वाले हैं।

खबर आ रही है कि आप क्विड ईवी लाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर आपकी क्या राय है? हमारी एक ईवी आ रही है और यह जरूरी नहीं है कि यह क्विड होगी। यह कुछ और भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ेंगे और कई नई श्रेणियां भी दस्तक देंगी। यह मुख्य तौर पर हमारी इलाकों में होगा और परिवेश कमी के कारण ग्रामीण बाजार पर इसका कब्जा करना मुश्किल हो सकता है। परिवेश महज चार्जिंग तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य बुनियादी ढांचे के लिए भी है। यह परिवर्तन होने में समय लगेगा। आपको अधिक बिजली उत्पादन की भी जरूरत होगी। आज हमारा कार बाजार 43 लाख कारों का है और साल 2032 तक करीब 70 लाख हो जाएगा। उस वक्त तक हमारे पास 10 से 12 फीसदी इलेक्ट्रिक कारों यानी करीब 7 लाख कारें होंगी। उसके बाद ही ईवी बढ़ेगी और उसे प्राथमिकता मिलेगी।

क्या रूस-यूक्रेन युद्ध से निवेश पर असर पड़ा? इसलिए हमारी पेशकश में देरी हुई। संकट के कारण ही रेनो की वैश्विक आर्थिक स्थिति प्रभावित हो गई। रूस में हमारी कार संयंत्र थे और हमने इसे सरकार को लगभग मुफ्त में दे दिया। इसका हमारी भारत में निवेश योजनाओं पर भी असर पड़ा।

वैकल्पिक ईंधन रणनीति पर आप क्या कहेंगे? हम लैटिन अमेरिका और ब्राजील में एथनॉल में अग्रणी हैं और 100 फीसदी एथनॉल पर ही चलते हैं। मैं एथनॉल मिश्रण का कट्टर समर्थक हूँ क्योंकि इससे किसानों को भी फायदा मिलता है। हम इससे कच्चे तेल पर होने वाले खर्च को भी कम कर सकते हैं। ईंधन की कीमत हो जाएगी और भारत का एक बड़ा हिस्सा ई-85 पर आ जाएगा।

## ... उपकरणों पर टाटा पावर का जोर

पृष्ठ 1 का शेष

टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने कहा कि भू-राजनीतिक मुद्दों ने कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डाल दिया है और इस कदम से कंपनी को आपूर्ति में कमी, परिवहन संबंधी दिक्कत, कीमत में उतार-चढ़ाव जैसे बाहरी समस्याओं से बचाने में मदद मिलेगी। भारत में करीब 90 फीसदी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आयातित कलपुर्जा-उपकरणों से बनी हैं। टाटा पावर सौर विनिर्माण के क्षेत्र में उतरने वाली प्रारंभिक कंपनियों में से एक है। नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में वृद्धि की संभावना को देखते हुए कंपनी ने अब अपने सौर

विनिर्माण को बढ़ाने की योजना बनाई है। टाटा पावर रीन्यूएबल के प्रेसिडेंट और टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ दीपेश नंदा ने कहा कि सौर विनिर्माण क्षमता में व्यापक इजाफा दिसंबर 2024 तक होने की उम्मीद है। नंदा ने कहा, 'विनिर्माण के मोर्चे पर हमने अपने 4.3 गीगावॉट मॉड्यूल विनिर्माण कारखाने को चालू कर दिया है और मॉड्यूल विनिर्माण की कुल क्षमता 4.9 गीगावॉट हो गई है। इसके अलावा हमने अपना पहला 2 गीगावॉट की सेल लाइन भी शुरू की है और दूसरी लाइन अक्टूबर में चालू होगी। दिसंबर 2024 तक सेल विनिर्माण क्षमता 4.9 गीगावॉट की हो जाएगी।'

कंपनी के अधिकारियों ने संकेत दिए कि सौर उपकरण विनिर्माण से मुख्य रूप से कंपनी और सहायक इकाइयों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा और अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन होने पर निर्यात की भी संभावना तलाशी जा सकती है। इसके लिए अमेरिका संभावित बाजार है। नंदा ने कहा कि कंपनी के 6 कारोबारी इकाइयों के बीच तालमेल के साथ काम किया जा रहा है। इनमें सोलर सेल एवं मॉड्यूल विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन, बिजली क्षेत्र में ईपीसी, रूफटॉप सोलर, बिजली परियोजना और वितरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी 6 कारोबार तकरीबन पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।

